



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 फाल्गुन 1943 (श0)

(सं0 पटना 85) पटना, शुक्रवार, 25 फरवरी 2022

सं0 6/ERSS-01-01/2021-1599गृ0आ0

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

पटना, दिनांक 21 फरवरी, 2022

विषय :-

आपात अनुक्रिया सहायक तंत्र (ERSS) परियोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में आपात अनुक्रिया वाहन (ERV) के परिचालन कार्य के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय के अन्तर्गत नियमित चालक के स्वीकृत 5996 पदों में से वर्तमान में रिक्त 1255 पदों पर बाह्यस्त्रोतीकरण के माध्यम से सेना से सेवानिवृत्त चालकों की सेवाएँ प्राप्त करने के लिए कुल अनुमानित वार्षिक व्यय ₹ 38,15,20,000 (अड़तीस करोड़ पन्द्रह लाख बीस हजार रु0) मात्र की लागत पर नामांकन द्वारा आर्मी वेलफेयर प्लेसमेन्ट ऑर्गेनाइजेशन (AWPO) नामक एजेन्सी के चयन की स्वीकृति।

आदेश :-

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-21.02.2022 में लिए गए निर्णय के आलोक में स्वीकृत।

2. आपात अनुक्रिया सहायक तंत्र (ERSS) परियोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में आपात अनुक्रिया वाहन (ERV) के परिचालन कार्य के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय के अन्तर्गत नियमित चालक के स्वीकृत 5996 पदों में से वर्तमान में रिक्त 1255 पदों पर बाह्यस्त्रोतीकरण के माध्यम से सेना से सेवानिवृत्त चालकों की सेवाएँ प्राप्त करने के लिए नामांकन द्वारा आर्मी वेलफेयर प्लेसमेन्ट ऑर्गेनाइजेशन (AWPO) नामक एजेन्सी के चयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. बाह्यस्त्रोतीकरण के माध्यम से सेना से सेवानिवृत्त 1255 चालकों की सेवाएँ प्राप्त करने के लिए प्रति चालक सिपाही प्रति माह वेतन (अधिकतम) ₹ 25,000 एवं प्रति चालक सिपाही वार्षिक वर्दी भत्ता ₹ 4,000 की दर से कुल अनुमानित वार्षिक व्यय ₹ 38,15,20,000 (अड़तीस करोड़ पन्द्रह लाख बीस हजार रु0) मात्र है।

4. अनुमान्य दर पर उपलब्ध कार्यबल के लिए मानदेय की राशि का भुगतान आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन (AWPO), दानापुर, पटना को किया जाएगा।

5. बिहार पुलिस मुख्यालय के अन्तर्गत नियमित चालक के स्वीकृत 5996 पदों में से वर्तमान में रिक्त 1255 पदों पर बाह्यस्त्रोतीकरण के माध्यम से सेना से सेवानिवृत्त चालकों के मानदेय की राशि का भुगतान माँग सं०-22, मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 001-निर्देशन और प्रशासन, उप शीर्ष 0001-अधीक्षण, विषय शीर्ष 28-02-संविदा सेवायें तथा विपत्र कोड 22-2055.00.001.0001 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे।

7. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका संख्या-6/ERSS-01-01/2021गृ०आ० के पृ०-22/टि० पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-21.02.2022 में मद संख्या-15 के रूप में प्राप्त है।

9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-6/ERSS-01-01/2021गृ०आ० के पृ०-25/टि० पर दिनांक-21.02.2022 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 85-571+10-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>